

### NIMBUS PROJECTS LIMITED

(formerly known as NCJ International Limited) (An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

CIN: L74899DL1993PLC055470

REAL MESTATE

Date: 06.09.2019

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 511714 Scrip ID: NIMBSPROJ

Sub: Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 Submission of Copies of Newspaper Clipping of Annual General Meeting & E-Voting Information

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, it is hereby informed that, Notice of 26th Annual General Meeting of Shareholders has been published in the "The Financial Express" (English Newspaper) and "Jansatta" (Hindi Newspaper), under applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India.

Further, as required under Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the said newspaper advertisement has been placed on the Company's website at www.nimbusprojectsltd.com in and the members may refer to the same for details.

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking You, Yours faithfully,

Sahil Agarwal

(Company Secretary & Compliance Officer)

For Nimbus Projects Limited PRO

M.No.: A36817

Encl. as above

FINANCIAL EXPRESS

### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, CHANDIGARH SCO No. 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh

.....Certificate Holder

RC. No. 2709/2017 **Punjab Gramin Bank** 

Versus

Surinder Kumar .....Certificate Debtor **PUBLICATION NOTICE** 

(Notice under Rule 2 of the Second Schedule of Income Tax Act, 1961 read with Section 25 to 28 of the RDDB & FI Act, 1993.)

 Surinder Kumar S/o Om parkash R/o #A-269-270, Gandhi Vihar, New Delhi.

2. Jalandhar Improvement Trust, Jalandhar through its Chairman. In terms of the Recovery Certificate in O.A No. 2829 of 2017 issued by the Hon'ble Presiding Officer, a sum of Rs. 12,55,498/- has become due from you.

Whereas it has been shown to the satisfaction of Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore this notice is given by this publication directing you to put in appearance before this Tribunal on 11.09.2019 at 11:00 A.M.

Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time the case shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal Recovery Officer-II on 06th Day of April, 2019 at Chandigarh. DRT-III, Chandigarh

#### INDO GULF INDUSTRIES LIMITED CIN: L74900DL1981PLC011425

Registered Office: 4237/11, IInd Floor, Narendra Bhawan 1, Ansari Road, Daryagani New Delhi - 110002, Email: rjheadoffice@gmail.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held

on Monday, the 30° Day of September, 2019 at 11.00A.M at 4237/11, IInd Floor, D-4, Narendra Bhawan, 1, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002 to transact the business as set out in Notice is further given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013.

Rules thereof and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 24°September 2019 to 30°September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of The Notice of the AGM along with the statement annexed to the Notice pursuant to section 102

March, 2019, have been sent to the members at their postal Address or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company/Depository 'Participants (DPs)/the Registrar and share Transfer Agents (R & T), as the case may be on 6th September, 2019. The Aforesaid documents are also available on the website of the Company viz www.indogulfind.com Pursuant to the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and as amended from time to time,

of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the year ended 31st

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the institute of Company Secretaries of India, the company is providing the facility to its members holding shares as on 24\*September, 2019, being the Cut off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an e-voting system from a place other the venue of the meeting ('Remote e-voting'). The Company has engaged Karvy Computershare Private Limited to provide Remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under: The remote e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019 at 10:00 A.M. and ends on Sunday, 29th September, 2019 at 5:00 P.M. During this period, members of the

- Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24\*September, 2019, may cast their vote The e-voting module will be disabled by Karvy for voting thereafter. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again Voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date
- avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of this Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@karvy.com and cast their vote.

However, if he is already registered with Karvy for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset his password by using "Forgot Password" option available on https://evoting.karvy.com.or.contact Karvy at 040-67161606 or Toll Free No.1800 3454 001

In case of any query, you may refer Help & Frequently Asked Questions (FAQs) sections of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or call Karvy on 040-87161606 & Toll Free No.1800 3454 001 or contact Mr. MRV Subrahmanyam at Karvy having its office at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Gachibowli, Nankramguda, Hyderabad – 500 032 or mail at the designated email id: evoting@karvy.com who will address the grievances

connected with the voting by electronic means. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.indogulfind.com and on the website of Karvy immediately after the declaration of results. Such results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed.

This notice is also available at the Company's website i.e.www.indogulfind.com and corporate announcements section of bseindia.com

The Members can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or

ROLLATAINERS LIMITED

CIN: L21014HR1968PLC004844

Reg. Office: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District-

Rewari Rewari, Haryana-123106, Email: cs.rollatainers@gmail.com;

Website: www.rollatainers.in, Tel.: 01274-243326, 242220

NOTICE OF 48th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING

INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that in terms of Section 108 of the Companies Act,

2013 and Rule 20(3) (v) of the Companies (Management & Administration)

Rules 2014, the 48th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

the Company will be held on Friday, 27th day of September, 2019 at the

Registered office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial

Electronic copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2019

along with attendance slip/proxy form and AGM Notice, indicating inter alia.

process and manner of e voting have been sent on 05th September, 2019 to

all the members whose e mail ids are registered with the

Company/Depository Participant(s) unless any member has requested for

a hard copy of the same. Further for members who have not registered their

email address, physical copy of Annual Report, Notice, Attendance

Slip/proxy form is being sent and is also available on the website of the

Members holding shares either in physical form or dematerialized form.

as on the cut-off date i.e Friday, the 20th September, 2019, may cast their

vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM

through electronic voting system of Central Depository Services Limited

('CDSL') from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All

i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted

ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2019

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, 26th September, 2019

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means

v.E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on

vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member

of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares

as of the cut-off date i.e. Friday, the 20th September, 2019 may obtain the

login ID and password by sending a request at beetalrta@gmail.com or

helpdesk.evoting@cdslindia.com or Call 1800225533. However, if a

person is already registered with CDSL for e-voting than existing user ID

vii.Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled

by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on Thursday, 26th September, 2019 and

once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not

be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot

paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cas

their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but

shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is

recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to

avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot

Viii.In case gueries or issues regarding e-voting, member may refer to the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for

members on www.evotingindia.com or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com, all future correspondence regarding e-

Services (India) Limited,

A Wing, 25th Floor, Marathon

Futurex, Mafatlal Mill Compounds,

N M Joshi Marg, Lower Parel (E),

helpdesk.evoting@cdslindia.com

BOOK CLOSURE INTIMATION

Central Depository

Mumbai 400013

Mr. Rakesh Dalvi

Phone No.1800225533

or at the AGM is Friday, the 20th September, 2019;

Area, Dharuhera, District-Rewari Rewari, Harvana-123106 at 10:00 A.M.

through "Ballot Form". If a Member casts votes by both modes voting done through remote e-voting shall prevail and the 'Ballot Form' shall be treated as invalid

> For and on behalf of board Indo Gulf Industries Limited HeenaKhera Company Secretary

Place: New Delhi

Company www.rollatainers.in.

the members are informed that:

(9:00 a.m. IST);

5:00 p.m. IST);

through voting by electronic means;

Thursday, 26th September, 2019:

and password can be used for casting vote;

voting, if any, should be addressed to:

(CIN-U74999DL2011PTC222364) Registered Office: G-16, Hans Bhavan, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002. Email: shreeram@gesaindia.com

FORM No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

30(6)(A) OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014

IN THE MATTER OF **PVS MARKETING & PROPMART** PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT G-16 HANS BHAVAN, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI - 110002 .....PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General meeting held on 1" day of April, 2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra"

Any person whose interest is likely to be mentioned below:

Date: 02/05/2019 For and on behalf of the

Part - I

Director (DIN-07191514)



Company at Roshanara Garden, Delhi - 110007 on Saturday, the 28th Sepetember, 2019 at 2.00 P.M. to transact the following business:-ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Report of the Managing Committee, Audited Balance Sheet for the year ended 31st March 2019 and the Audited Income & Expenditure Account as on that date along with the Auditors' Report thereon.
- (Firm's Registration No. 001297N) from financial year 2019-2020 for next five years an pursuant to section 139 of the Companies Act 2013 & to authorize the Board of Director to fix their remuneration.
- resolution as an ordinary resolution:

provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Audit & Auditors Rules 2014 (including statutory modification or reenactments thereof for the time being i force) appointment of M/s D.G. & Co., Chartered Accountants (Firm's Registratio No.007214N) (who was appointed as statutory Auditors at 93rd AGM for Five years till the conclusion of 98th Annual General Meeting), as Statutory Auditors be and is hereby ratified and approved for financial year 2018-19, from the conclusion of this 98th Annua General Meeting till the conclusion of next 98th Annual General Meeting, on suc remuneration plus service tax, out-of-pocket, travelling and living expenses, etc., as may b mutually agreed between the Board of Directors of the Company and the Auditors.

Company, as all retire by rotation in terms of section 152(6) and 160 of the Companies Ac 2013, as amended, and the Article 43 and 44 of the Articles of Association of the Company, through ballot process as prescribed in Articles of Association.

> Slankker (Subhash Kakkar Director & Hon Gen Secretar (DIN - 00454225

Dated: 04 September 2019



Place: New Delhi

Regd. Office: Delton House 4801, Bharat Ram Road 24, Daryaganj, New Delhi - 110002

Phone: 91-11-23273907 Email: dcl@deltoncables.com, Website: www.deltoncables.com CIN: L31300DL1964PLC004255

Cables Limited (CIN: L31300DL1964PLC004255) will be held on Monday, the 30<sup>th</sup> September, 2019 at 10:30 A.M. at Delton Hall, I.E.T.E 2. Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110003 to transact the businesses set out in the Notice dated 14.08.2019 which has already been sent on 05.09.2019 to all the shareholders individually through e-mail if his/ her e-mail address is registered with the Depository/ Registrar & Transfer Agent and through courier if his /her e-mail ID is not so registered.

the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2019 to 30" September 2019 (both days inclusive). In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI LODR) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business items as mentioned in the Notice of 54th Annual General Meeting through the CDSL to enable the members to cast their votes electronically. The remote E-voting commences on Friday. 27" September 2019 (10.00 am) and ends on Sunday, 29" September 2019 (5.00 p.m.). No E-voting shall be allowed beyond the said date and time. M/s Sidharth Sharma & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for E-voting process.

not be entitled to cast their vote again. The members who have not cast their vote by remote evoting shall be able to vote at the meeting through ballot paper. A person, whose name is recorded n the Register of Members/Beneficial Owners on the cut-off date i.e. 23" September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through ballot paper in the AGM. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 23" September, 2019 may obtain the user ID and password by following the procedure given in the Notice of the meeting which is available on Company's website i.e. www.deltoncables.com.

Company Secretary & Compliance Officer at the registered office address of the company; email: s@deltoncables.com / shares@deltoncables.com; Phone: 011-23273905-07 or you could also refer the remote e-voting user manual for shareholders available in the help section of www.evotingindia.com. For Delton Cables Limited

(Vikas Rawat) (Company Secretary & Compliance Officer)



### NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi - 110001

CIN - L74899DL1993PLC055470,

Website: www.nimbusprojectsltd.com, Email: nimbusindialtd@gmail.com, Telephone: 011-42878900, Fax Number: 011-22424291

NOTICE FOR 26<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,

Projects Limited ('Company') will be held at "The Golden Palms Hotel and Spa", situated at Plot - 6C, Community

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION Notice is hereby given that the Twenty Sixth (26") Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Nimbus

Centre, Opp. East Delhi Police Headquarters, Patparganj, I.P. Extension, Delhi-110092" on Monday, September 30, 2019 at 10.00 A.M. to transact the businesses as set out in the Notice dated September 04, 2019. The Notice of the AGM of the Company along with printed Attendance Slip, Proxy Form for the year ended March 31, 2019 have been sent electronically on September 04, 2019 to those members who have registered their email address with the Company/ Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA'). Physical copy of the aforesaid

documents has been dispatched through registered post to those members who have not registered their email IDs with the Company/ Company's RTA as on September 04, 2019. The Annual Report for the financial year 2018-19 has been sent to the members and the copy of the Annual Report along with the Notice of AGM is also available on the Company's website: www.nimbusprojectsltd.com. The Notice of AGM has also been uploaded on NSDL website at the link https://www.evoting.nsdl.com. Copies of the aforesaid documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays and Sundays, during working hours upto the date of the AGM. Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same

by writing to the Company Secretary at the above mentioned address or e-mail ID. In compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or enactment(s) thereof for the time being in force}, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). All the Members are hereby informed that:

- a) The remote e-voting period begins at 09:00 A.M. on September 27, 2019 and ends at 05:00 P.M. on September 29, 2019. The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter;
- Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. September 23, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the AGM:
- For Members who have acquired shares after dispatch of the Notice and become Members of the Company as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA. The detailed procedure for obtaining the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website; d) A member who will exercise his right to vote through remote e-voting can also attend the AGM but, shall not
- be allowed to vote again therein. The voting at AGM shall be through Ballot process. The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; For any queries or issues regarding remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs)
- or e-Voting Manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to Company Secretary, or may contact the following person: Name: Sahil Agarwal

Designation: Company Secretary & Compliance officer

Address: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi-110001

Email id: secretarial@nimbusgroup.net

Phone number: 011-42878909/910

Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 23rd September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive);

The Company has appointed Mr. Kapil Dev Vashisth, Practicing Company Secretary (Membership No. F5898; Certificate of Practice No. 5458), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

For Nimbus Projects Limited

Date: September 04, 2019 Place: New Delhi

Sahil Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. A36817

### STELLAR CAPITAL SERVICES LIMITED CIN: L74899HR1994PLC076773

Registered office: 402, 4th Floor Solitaire Plaza, M.G. Road, Gurgaon, Haryana-122002 Website: www.stellarcapital.in E mail ID: stellarcapital@yahoo.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 25th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will

be held on Monday, 30th September, 2019 at 02:00 p.m. at the registered office of the Company at 402, 4th Floor Solitaire Plaza, M.G. Road, Gurgaon, Haryana-122002 to transact the Businesses as set out in the Notice being sent to the members by physical/ electronic form, as the case may be, along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2019.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date i.e. 23rd September, 2019, may cast their vote electronically on the Business as set out in the notice through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted

- through voting by electronics means. The remote e-voting shall commence on 27th September, 2019 (10:00 am) and ends
- on 29th September, 2019(5:00 pm).
- Cut-off date for voting is 23rd September, 2019. Any person, who acquire shares and become member of Company after dispatch
- of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 23rd September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and
- time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
- Notice is available on the Company's website www.stellarcapital.in and also on the CDSL's website www.evotingindia.com vii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently
- Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to company at stellarcaptial@yahoo.in For Stellar Capital Services Limited

Date: 05th September, 2019 (Company Secretary)

### General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7). Registered Office: 2nd

PUBLIC NOTICE

Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi - 682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 30.06.2018), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.

### Date of Auction: 13.09.2019

Place : New Delhi

Date: 4.09.2019

Delhi - Nehru Place: MUL-2510, 2552, MWS-183, 184, 493, 503, 834, 867, Hauz Khas: MUL-614, 2876, 2891, 2944, 3017, 3041, 3056 Connaught Place: MUL-1831, 1967, 1996, 2030, 2124, 2165, 2181, 2197, 2204, 2221, 2229, 2233, MXL-9962, Delhi - Lajpat Nagar: MPO-6, Sarai Juleana: MGL-1797, 2040, MSL-28881, 32168, 32169, 32171, MWS-699, 913, 934, 1201, 1426, 1630, 1667, 1766. Munirka: MUL-3584, 3633, 3763, 3948, 4100, 4108, 4142, 4304, 4308, 4317, 4339, 4342, 4385, 4448, 4582, 4650, 4668, 4686, 4691 4708, 4753, 4767, 4813, 4833, 4842, MWS-200, 676, 704, 767, 771, 842, 846, 951, 1057, 1149, 1154, 1318, 1442, 1580, 1632, 1733 1945, Delhi - Kalkaji: MHL-264, MUL-1339, 1357, 1376, 1495, Nehru Place II: MUL-1014, 1230, MWS-273, 297, 478, PPL-5714 Daryaganj: MUL-2228, 2235, 2283, 2413, 2475, 2508, 2585, 2711, 2746, 2783, 2921, Yusuf Sarai: MUL-1643, 1656, 1743, 1781, 1972. Tughlakabad Extn: MWS-493, 592, 824, 843, 871, 942, 976, Mehrauli: MWS-709, 802, 835, 864, 1017, 1023, 1036, 1205, 1247, 1249, 1337, 1400, 1411, 1435, 1486, 1687, Malviya Nagar: MUL-1185, 2063, 2240, Green Park: MOS-73, MUL-1320, 2132, 2464, 2551 Kalkaji Extn: MUL-1960, 2026, 2097, 2112, 2245, 2456, 2496, 2603, 2655, 2739, 2847, 2879, 3221, 3415, 3485, 3524, 3612, 3625 3672, MWS-32, 34, 90, 92, Saket: MUL-1972, 2115, 2951, 2986, 3001, 3045, 3075, 3132, 3161, 3227, 3271, 3315, 3363, 3386, 3471 3706, Jangpura: MSL-16238, MUL-1204, 1416, 1641, 1904, 1928, 2113, 2214, New Delhi - Kotla: MUL-1569, 2543, 2564, 2648, 2649, 2772, 2833, 2942, 3055, 3087, 3286, 3290, Okhla Phase II: MUL-1059, 1799, 2057, 2154, 2206, 2211, 2215, 2249, 2254, 2306, 2363, Mahipalpur: MUL-1326, 1430, 1540, 1591, 1643, 1721, 1975, 1982, 2053, 2081, 2272, 2308, 2309, 2351, 2410, 2522, Vasant Kunj -Masoodpur: MUL-824, 1021, 1111, 1242, 1379, 1412, 1419, 1462, 1599, Hari Nagar Ashram: MUL-1006, 1092, Delhi - Sant Nagar: MLS-33, MUL-837, 1014, 1140, 1276, 1333, 1423, Asaf Ali Road: MUL-665, 675, R. K Puram: MUL-1288, 1889, 1918, 2295, 2345, 2395, 2641, Katwaria Sarai: MSL-10006, 10130, 10177, 10193, MUL-1053, 1231, 1237, 1270, 1272, 1366, Lado Sarai: MSL-17633 17634, 18019, MUL-1549, 1834, 2321, 2335, 2421, 2543, 2621, 2636, 2662, 2678, 2729, 2834, 2954, 2972, Chuna Mandi: MUL-1312, 1314, 1345, 1369, 1388, 1463, 1536, 1541, 1619, 1686, 1696, Jeewan Nagar: MAL-587, 625, MSL-6430, MUL-609, 720, 747, 858, 988, 1014, 1145, 1158, Lajpat Nagar - 3 CS Road: MUL-993, Pul Pehladpur:MAL-1289, 1401, 1523, 1643, 1761, 1769, 1829, MUL-1957, 2280, 2365, 2388, 2509, 2625, Delhi - Chirag: MUL-508, 609, 930, 940, Devli Khanpur: MUL-1112, 1997, 2116, 2199, 2290 Auction of Spurious/Low purity ornaments, (Accounts for the period up to 31.12.2018)

Date of Auction: 13.09.2019 Delhi - Nehru Place: MWS-1168, Munirka: MWS-1273, Delhi - Kalkaji: MWS-586, Daryaganj: MUL-2408, 2414, Jangpura:

subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

MUL-2907 The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches. However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on 14.09.2019 respectively at K-24, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar -II, New Delhi - 110024 and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on

MUL-2865, New Delhi - Kotla: MUL-3022, 3038, 3928, Delhi - Okhla Phase II: MUL-1841, 1868, Hari Nagar Ashram: MUL-1757,

Jeewan Nagar: MUL-1729, Lajpat Nagar - 3 CS Road: MUL-1851, Pul Pehladpur: DPL-23, Delhi - Chirag: MUL-870, Devli Khanpur:

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Laipat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client.

Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that our client, M/s, Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi - 682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 30.06.2018), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate Date of Auction: 13.09.2019

Place: Gurgaon

Bazpur - (UT): MSL-11824, MUL-1101, 1163, 1266, 1305, 1306, 1359, 1361, 1412, 1430, 1477, 1550, 1555, 1596, 1663, 1686, 1693, 1711, 1851, 1873, 1973, 1980, 2101, 2105, 2117, 2123, 2135, 2177, 2272, 2365, 2390, 2433, 2438, 2517, 2537, 2642, 2659, 2690, 2766, 2860, 2863, 2888, 2890, 2967, 2996, 3023, 3081, 3086, 3087, 3118, 3171, 3191, 3193, 3386 Date of Auction: 14.09.2019

Gadarpur - (UT): MUL-287, 712, 807, 810, 811, 812, 923, 927, 931, 998, 1062, 1082, 1146, 1161, 1172, 1247, 1279, 1293, 1347, 1385, 1404, 1422, 1441, 1450, 1509, 1602, 1611, 1643 Date of Auction: 16.09.2019

Khatima - (UT): MGL-9, 39, 41, 68, 69, 83, 92, 199, 214, 358, MUL-33, 35, 37, 40, 52, 68, 69, 103, 198, 218, 225, 226, 227, 260, 267, 272, 286, 288, 307, 309, 323, 365, 371, 377, 395, 429, 442, 460, 531

Kichha - (UT): MUL-678, 715, 1066, 1080, 1130, 1349, 1400, 1415, 1464, 1488, 1549, 1597, 1718, 1775, 1924, 2047, 2130, 2166, 2229, 2301, 2340, 2343, 2460, 2521, 2598, 2686, 2726 Date of Auction: 18.09.2019

Ram Nagar - (UT): MGL-182, 279, 283, 303, 389, 402, 437, 458, 459, 462, 477, 505, MSL-8, 160, 244, 460, 468, MUL-38, 39, 43, 50, 51, 52, 60, 61, 150, 152, 153, 154, 155, 158, 171, 190, 200, 212, 238, 270, 312, 315, 351, 355, 369, 385, 389, 390, 396, Auction of Spurious/Low purity ornaments, (Accounts for the period up to 31.12.2018)

Date of Auction: 13.09.2019 Bazpur - (UT): MUL-1969, 2839, 2899

Date of Auction: 17.09.2019 Kichha - (UT): MHP-4

Date of Auction: 18.09.2019 Ram Nagar - (UT): MUL-710

The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches.

However, please note that in case the auction does not get completed on the given date then the auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client.

Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461

epaper financia press.com

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the applicable Rules there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company wil

Rollatainers Limited

Remari, Harvana-123106

Mr. Pankaj Mahendru

Company Secretary

Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial

Area, Dharuhera, District-Rewari

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com

remain closed from Saturday, the 21st September, 2019 to Friday, the 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 48th Annual General Meeting.

By order of the Board For Rollatainers Limited Aarti Jain Place: New Delhi Chairperson Date: 05.09.2019 DIN: 00143244

Beetal Financial & Computer

Behind L.S.C., New Delhi-110062

Services Pvt. Ltd

3rd Floor, 99, Madangir,

Tel No: 011-29961281-83

Email: beetalrta@gmail.com

Website:www.beetalfiancial.com

Contact Person: Mr. Punit Mitta

Fax No: 011-29961284,

**PVS MARKETING & PROPMART** PRIVATE LIMITED

NOTICE (Revised)

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR. NORTHERN REGION, NEW DELHI AND IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013, SECTION 13(4) OF THE **COMPANIES ACT, 2013 AND RULE** 

affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature if his/ her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2<sup>10</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhavan), C.G.O. Complex, New Delhi - 110003 within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address

G-16, Hans Bhavan, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Place: New Delhi

> applicant **PVS Marketing & Propmart Private Limited** Jayant G. Vimawala

ROSHANARA CLUB LTD.

Roshanara Garden, New Delhi 110007 **NOTICE OF 98th ANNUAL GENERAL MEETING** Notice is hereby given that 98th (Ninety Eight) Annual General Meeting of Roshanara Club

Limited (CIN - U91990DL1901PLC000098) shall be held at the Registered Office of the

To appoint Statutory Auditors - M/s Khanna & Annadhanam , Chartered Accountant

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable

To elect and appoint all Fifteen Directors in place of all the existing Directors of the For Roshanara Club Limite

B-63, Gujranwala Town, Part- I Delhi 11000

Delton Cables Limited

NOTICE is hereby given that the 54" Annual General Meeting of the Members of M/s Delton

Notice is also hereby given persuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of

The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall

Any queries/grievances relating to remote e-voting could be addressed to Sh. Vikas Rawat,

Date: - 06.09.2019 Place: - New Delhi **Brahmaputra Infrastructure Limited** 

Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037

No. 011-42290200, CIN: L55204DL1998PLC095933, Email: cs@brahmaputragroup.com GROUP UN - AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th JUNE 2019 (Figures - ₹ in lakhs)-Excepts EPS

Standalone unaudited Financial Results for the **Un-audited** Audited Quarter Ended 30th June 2019 SI. No. Quarter ended Year Ended **Particulars** 30/6/2019 31/3/2019 30/6/2018 31/3/2019 Income From Operations 6,776.74 4,994.09 a) Net Sales / Income from Operations (Net of Excise Duty) 4.526.98 23,743.01 183.87 b) Other Operating Income 208.31 248.73 664.11 7,025.47 Total Income from operations (net) 4,735.28 5,177.96 24,407.12 8,292.05 5,022.90 Total Expenses 5,006.93 25,331.53 Profit/(loss) before exceptional items and tax (1-2) (271.63)1,266.58) 155.07 (924.41)Exceptional Items - Expenditure / (Income) (0.05)(439.73)(474.67) (933.46)Profit/(loss) before tax (3-4) (271.58)(826.85)629.74 9.05 629.61 Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period (271.75)(779.79)55.67 Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each) 2,901.84 2,901.84 2,901.84 2,901.84 Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of 13,626.40 previous accounting year Earning Per Share (before extraordinary items) of Rs. 10/- each (Not annualised\*) (0.94)(2.69)2.17 (a) Basic 0.19 (0.94)(2.69)2.17 0.19 (b) Diluted

This is an extract of un-audited financial results of 30th June 2019, in detail results are avialable on the BSE Corporate announcement Portal and on the Company Website

> For and on behalf of Board of Directors Sanjay Kumar Mozika Joint Managing Director Din: 00004508

# आत्मरक्षा के लिए सेना के प्रयोग से हिचक नहीं: राजनाथ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 5 सितंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में सियोल में हुई रक्षा वार्ता में की।

रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कहा, 'भारत का इतिहास देखें तो वह कभी भी हमलावर नहीं रहा है। और न ही होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में टाल-मटोल करेगा।' रक्षा मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को दक्षिण कोरिया

एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, 'रक्षा कूटनीति भारत की सामरिक नीति का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। दरअसल, रक्षा



राजनाथ सिंह ने यह टिप्पणी कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में सियोल में हुई रक्षा वार्ता में की।

कूटनीति और मजबूत सैन्य बल रखना एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। ये साथ-साथ चलते हैं। सिंह ने अपने संबोधन में संसाधन समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में साझा नियम आधारित व्यवस्था की जरूरत पर भी बात की। इस दौरान दक्षिण कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी और देश की रक्षा संस्थानों के शीर्ष कार्यकारी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि यह 'व्यवस्था' सभी राष्ट्रों की पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता व समानता पर आधारित होनी चाहिए, भले ही उसका आकार व बल कितना भी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र एवं समग्र संरचना का पक्षधर है।

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

CIN - L52110DL1985PLC020240

Regd Office: K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Members of the Company will

be held at the Registered Office of the Company at K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening this Annual General

Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed

to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast

their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote

The Remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 25th , September, 2019 from 9.00

am and end on Friday, 27th September, 2019 at 5.00 pm. The remote e-voting shall not be allowed

A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 21st September

2019 (Cut off date) only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting

बी-1/3, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 फोन नंबर 011-26714564

कब्जा सुचना

{ प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) }

चल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्धा बैक के प्राधिकृत अधिकारी के

रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, २००२ के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12)

के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माग सूचना तिथि

31.12.2018 जारी कर ऋणधारक श्री दिलीप कुमार परिहार पुत्र श्री गुरु सम्पत

कुमार ,प्रथम तल,प्लॉट न.137 ,पॉकेट 2 , सेक्टर –22 ,रोहिणी दिल्ली

–110085 (सह– आवेदक / गारंटर्स) श्री राजेश पांचाल पुत्र श्री जे पी पांचाल

.1/4081 ,राम नगर शाहदरा ,दिल्ली -110032 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से

60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,19,610.32/- (रु. चार लाख उन्नीस

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विपल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम

जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 22 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13

की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहा नीचे

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय वे

सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे

यहा नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करे तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का

व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आंद्रा बैक के चार्ज के

चल संपत्ति का विवरण

फॉर व्हीलर—फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 एम्बिएंट पेटोल ,इंजन न. FY53873 , चैसिस न

MAJAXXMRKFY53873, रंग –पी ब्लैक ,रजिस्ट्रेशन न DL8CAK9449, वर्ग

SMC Credits Ltd.

24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi - 110060

CIN: L65910DL1992PLC049566

Email id: smccorp011@gmail.com Ph: 011-45012880 Website: www.smccredits.com

NOTICE is hereby given that the 27" Annual General Meeting (AGM) of the members of SMC

Credits Limited will be held on Monday the 30" September, 2019 at 10.30 A.M. at the

Registered Office of the Company at 24, Ashoka chambers, 5-B, Rajindra Park, Pusa Road,

Electronic copy of Notice dated 13" August, 2019 along with Annual Report for the Financia

Year 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the

Company / Depository Participant(s). The dispatch of the same has been completed on

E-Voting: Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section

108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the

facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM from

a remote location (Remote e-voting). The Company has engaged the service of National

Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized 'Agency' to provide the facility of

The detail instructions of remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are

The remote e-voting shall commence on Friday, 27" September, 2019 at 10:30 a.m.;

The Cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the

The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM for

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 p.m. on 29°

(ii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also

(iii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads

Book Closure: Further, Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the

Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing)

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members

and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on 24th September to 30th

For SMC CREDITS LIMITED

(PRASAHESH ARYA)

Director

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 06.09.2019

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall

be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and

section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no. 1800-222-990.

September, 2019 for the purpose of the Annual General Meeting.

September, 2019 and once the vote on resolution is cast by the members, the

The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 29" September, 2018.

The remote e-voting shall end on Sunday, 29" September, 2019 at 5:00 p.m.;

members who have not cast their vote through remote e-voting.

members shall not be allowed to change it subsequently;

New Delhi-110060 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

चीफ मैनेजर एण्ड प्राधिकृत अधिकारी

हजार छः सौ दस और बत्तीस पैसे ) वापस लौटाने का निदेश दिया था ।

वर्णित सम्पति का कब्जा कर लिया है ।

संपत्ति से संबंधित सभी अंश और खंड

–एलएमवी, निर्माण वर्ष–2015

दिनांक: 02.09.2019

स्थान: नई दिल्ली

5" September, 2019.

requested to note the following:

Members may note that:

paper.

Place: New Delhi

Date: 05.09.2019

Saturday, 21st September, 2019 to Saturday 28th September, 2019 (both days inclusive)

ers who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date i

By order of the Board of Directors

Sudha Jajodia

(DIN - 00376571)

For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

Delhi 110 016 on Saturday, 28th September, 2019 at 3.00 pm

Date: September 6, 2019

## तबीयत बिगड़ने पर इलाज करवा कर जेल भेजे गए अमित

बिलासपुर, 5 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।

गौरेला थाने के थाना प्रभारी दिनेश कुर्रे ने गुरुवार को बताया कि पेंड्रा उप-जेल में बंद मरवाही क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित जोगी की तबीयत अचानक बुधवार रात बिगड़ गई। कुर्रे ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे अमित जोगी ने सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत की थी। जेल चिकित्सक ने उनका प्रारंभिक परीक्षण किया और उन्हें अस्पताल भेजने की सलाह दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल प्रबंधन तथा स्थानीय पुलिस ने पहले जोगी को रात करीब साढ़े। दस बजे गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और बाद में गौरेला-पेंड्रा के ही सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जरूरी उपचार किया। करें ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे जोगी के स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार आने के बाद उन्हें वापस जेल दाखिल कर दिया गया है।

## इंदौर के अपार्टमेंट में लगी आग, दो बच्चे समेत सात

इंदौर (मध्य प्रदेश), 5 सितंबर (भाषा)।

इंदौर के एक आवासीय अपार्टमेंट में गुरुवार तड़के आग लगने से दो बच्चों समेत सात लोग झुलस गए। इस दौरान इमारत में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने की शुरूआत पार्किंग क्षेत्र में रखे दोपहिया वाहनों से हुई। संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अग्निशमन विभाग के नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आलापुरा इलाके के चार मंजिला अपार्टमेंट में पार्किंग क्षेत्र में लगी आग देखते ही देखते अपार्टमेंट की पहली मंजिल तक पहुंच गईं। अफरा-तफरी के बीच अग्निशमन विभाग के दल ने आग में फंसे 14

लोगों को सुरक्षित बचाया। एक अन्य अधिकारी ने बताया

कि अग्निकांड में सात लोग झलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें छह वर्षीय एक बच्ची, 10 वर्षीय एक लड़का और दो महिलाएं शामिल हैं।

epaper.jansatta.com

# 83 तेजस लड़ाकू विमानों की कीमत तय: रक्षा मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 5 सितंबर।

रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक (खरीद) अपूर्व चंद्र ने गुरुवार को कहा कि 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) की कीमत के मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा बनाए जाने वाले इन विमानों की कीमत संबंधी करार पर अगले कुछ महीनों में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

**BASANT INDIA LIMITED** 

R.O.: 912, IndraPrakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001

Email Id: basant.indiaa@gmail.com, Tel No. 011 237165341

CIN: L51909DL1985PLC021396

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING.

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and applicable provisions of

Companies Act, 2013 ("the Act"), if any, and Rules made thereunder, "Notice" is hereby

given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of Basant India Limited is scheduled to

be held on Monday, September 30, 2019 at 3:00 P.M. at 912 Indra Prakash Building, 21

Barakhamba Road New Delhi-110001 to transact business mentioned in the Notice

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the

Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended from

time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company for e-

voting will be closed from Tuesday 24th September 2019 to Monday, 30th September,

Electronic copies of the Annual Report for the financial year 2018-19 along with the Notice

convening 34th AGM have been sent to all the members whose e-mail addresses are

registered with the Company/Depository Participant(s), unless a member has requested

for physical copy of the same. Other than the members whose e -mail addresses are not

registered with the Company/Depository Participant(s), physical copies of the above

mentioned documents have been sent at their Registered address in the permitted mode.

In compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to

provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting

services provided by Central Depository Services India Limited (CDSL), on all resolutions

Further, the facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at

the Businesses as set out in the Notice of 34th AGM of the Company may be

(ii) the remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2019 (9:00 A.M.

(v) Any person, who acquires and/or allotted/issued shares of the Company and

becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as

on the cut off date, may obtain the login ID and password by sending a request to the

Remote e-voting shall not be allowed beyond Sunday, September 29, 2019 (5:00 P.M.

The facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at the

AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM through Ballot

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date shall only be

Slip, Proxy Form is available on the Company's website i.e. http://www.basantindia.in/

Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com

under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or

basant.indiaa@gmail.com. The helpdesk can also be contacted on their toll free

number: 1800225533. In case of any grievances connected with the facility for voting

by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th

Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel

vii) The Notice of 34th AGM of the Company along with the Annual Report, Attendance

(viii) In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM

(iii) the remote e-voting period ends on Sunday, September 29, 2019 (5:00 P.M. IST),

2019 (both days inclusive) for the aforesaid AGM.

proposed to be considered at the aforesaid AGM

(iv) cut - off date: Monday. September 23, 2019.

contact person mentioned in point no. (viii).

their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM,

and CDSL's website i.e. www.evotingindia.com; and

transacted through voting by electronic means,

All members are hereby informed that:

vi) The members may note that -

(East), Mumbai - 400013

Date: 05.09.2019

Place: Delhi

the AGM.

दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया।

यहां एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के लिए 'आकाश' सतह से हवा में मार करने वाली अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते मंज्री दे दी थी और इस संबंध में करार पर अगले सात दिनों के भीतर हस्ताक्षर होंगे। चंद्रा ने कहा, 'एलसीए की कीमत, जिस पर

कीमत निर्धारित करने वाली समिति चर्चा कर रही थी, उसे रक्षा उत्पादन के सचिव द्वारा दो दिन पहले बुलाई गई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। अब समर्थन पैकेज की कीमत पर चर्चा जारी है। उसे भी एक से दो महीने के भीतर तय कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम तीन से चार महीने के भीतर विमान के लिए करार पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में होंगे।' दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। यह सम्मेलन 'एनर्जाइजिंग इंडियन एअरोस्पेस इंडस्ट्री : फ्लाइट प्लान फॉर द फ्यूचर' विषय पर आयोजित किया गया।

### RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692, E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com CIN No:- L74899DL1984PLC019097

### 35वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान एवं बही बंद करने की सूचना (इस सूचना के एडेंडम समेत)

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 26 सितंबर, 2019, सुबह 10.30 बजे, श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड इन्स्टिट्यशनल एरिया, प्रगति विहार, नई दिल्ली — 110003 में होगी, जिसका कि उद्देश्य, 10 मई, 2019 दिनांकित सूचना और 26 अगस्त, 2019 दिनांकित इस सूचना के अतिरिक्त सूचना में उल्लिखित कार्यों (बिजनेस) को पूरा करना है।

कम्पनी ने 2 सितंबर, 2019 और उससे पहले ही वित्त वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट समेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम की सूचना, एजीएम सूचना का एडेंडम, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म उन सदस्यों को ई—मेल कर दिया है, जिनके ई—मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयरधारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों) और कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेंट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (''कार्वी'') के पास दर्ज हैं और जिन सदस्यों के ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट / कार्वी में दर्ज नहीं हैं (वास्तविक शेयरधारण की स्थिति में) उन्हें उनके पंजीकृत पते पर मान्य माध्यम से भेज दिए हैं । उपरोक्त डॉक्युमेंट कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय—समय पर संशोधित, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक सचिव मानक (एसएस–2) और एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उदघोषणा) नियामक, 2015 के नियमन 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई—मतदान') से मतदान की सुविधा दे रही है और कावीं द्वारा दी गई मतदान की सुविधा से कथित कार्यों को पूरा किया जा सकता है। रिमोट ई-मतदान के विस्तृत विवरण 10 मई, 2019 दिनांकित एजीएम की सूचना में भी दिए गए हैं। मतदान पत्र से मतदान करने की सुविधा एजीएम केंद्र पर दी जाएगी।

सदस्यों से निवेदन है कि निम्नलिखित का ध्यान रखें:

- क) रिमोट ई–मतदान सोमवार 23 सितंबर, 2019 के 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ और बुधवार, 25 सितंबर, 2019 के 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। इसके बाद कार्वी ई-मतदान मॉडयूल को अक्रिय कर देगी और कथित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ख) गुरुवार, 19 सितंबर, 2019 ("कट ऑफ / रिकॉर्ड तिथि") में कम्पनी के पेड-अप इक्विटी कैपिटल के शेयरों के अनुपात में सदस्यों को मताधिकार दिए जाएंगे। कट ऑफ / रिकॉर्ड की तिथि में जिनके नाम कार्वी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास सुरक्षित सदस्यों की पंजी या लाभान्वितों की पंजी में होंगे उन्हें रिमोट ई-मतदान या एजीएम में मतदान, जैसी भी स्थिति हो, करने का अधिकार दिया जाएगा।
- ग) एजीएम की सूचना मेजने के बाद सदस्य बने और गुरुवार, 19 सितंबर, 2019, अर्थात, कट ऑफ की तिथि में शेयर रखने वाले व्यक्ति evoting@karvy.com या 040-67162222 या कार्ची के टॉल फ्री नंबर 1800-3454-001 या कम्पनी से rfl@relaxofootwear.com के माध्यम से निवेदन कर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी कथित बैठक की 10 मई, 2019 दिनांकित सूचना में भी दी गई है।
- घ) मतदान पत्र से मतदान करने की सुविधा बैठक के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—मतदान के माध्यम से पहले से अपना वोट नहीं डाला है बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- करने का अधिकार नहीं होगा।

छ) बैठक से पूर्व रिमोट ई—मतदान द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें एजीएम में दोबारा मतदान

कम्पनी के निदेशक मंडल ने इमानदारी और पारदर्शिता के साथ रिमोट ई—मतदान प्रक्रिया और बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान पर निगरानी रखने के लिए कार्यरत, कम्पनी सचिव, श्री बलदेव सिंह काश्तवाल (एफसीएस सं. 3616, सी- पी- सं. 3169) को स्कूटनाइजर नियुक्त किया है।

रिमोट ई–मतदान और एजीएम में किए गए मतदान के परिणामों को बैठक समापन के अधिक से अधिक अडतालीस घंटों के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान के परिणामों के साथ स्क्रटनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 28 सितंबर, 2019 या उससे पहले प्रबंध निदेशक या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अधिकृत अन्य व्यक्ति करेंगे और स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरियों और कार्वी को इसकी सूचना देने के साथ-साथ ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रसारित किए जाएंगे।

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान संबंधी यदि कोई शिकायतें / सवाल हों / स्पष्टताएँ चाहिए हों, तो सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन मे शेयरधारकों के लिए सहायता और अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्युज) और 'शेयरधारकों के लिए ई—मतदान उपयोग पुस्तिका' देखें और / या श्री. रमेश देसाई, प्रबंधक — कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, यूनिटः रिलैक्सो फ्टवियर्स लिमिटेड, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाछीबौली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 या evoting@karvy.com या संपर्क सं. 040–6716 2222 या कार्वी के टॉल फ्री नं. 1800–3454–001 से संपर्क करें। कम्पनी के सदस्य श्री विकास कुमार टाक, कम्पनी सचिव, रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड, अग्रवाल सिटी स्क्वेयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम पैलेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर — 3. रोहिणी, दिल्ली—110085, संपर्क सं: 011—46800600 से संपर्क और rfl@relaxofootwear.com पर ई—मेल लिख सकते हैं।

**बही बंद रखना:** आगे सूचना दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित, उसके तहत बने नियमों और सूचीकरण नियमन के नियम 42 के अनुसार, सदस्यों की बही और कम्पनी की शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 20 सितंबर, 2019 से बुधवार, 25 सितंबर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक 35वीं एजीएम और वित्त वर्ष 2018—19 के लाभांश, यदि सदस्य घोषित करते हैं, के भूगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

नोटः 10 मई, 2019 दिनांकित एजीएम सूचना की स्वीकृति के पश्चात, कम्पनी के निदेशक मंडल ने 26 अगस्त, 2019 दिनांकित अतिरिक्त सूचना के माध्यम से विशेष कार्य में एक अन्य एजेंडा आइटम नं. 5 जोड़ दिया है, जोकि सदस्यों की स्वीकृति के उद्देश्य से 10 मई, 2019 दिनांकित सचना का अभिन्न भाग है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड

विकास कुमार टाक

कम्पनी सचिव

तिथि: 4 सितंबर, 2019

(Sudhanshu Sekhar Nayak) Company Secretary & Compliance Officer स्थानः दिल्ली

For Basant India Limited

### DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः विक्रांत टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008 CIN: L74899DL1889PLC000004 फोनः (011) 25719967, फैक्सः (011) 25765214 ई-मेल आईडी: investors@dcm.in, वेबसाइट: www.dcm.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीसीएम लिमिटेड (दि "कंपनी") के सदस्यों की 129वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), सूचना पत्र में वर्णित व्यापार के लेन-देन के लिए, एमपीसीय शाह ऑंडिटोरियम, श्री दिल्ली गुजराती समाज मार्ग, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110054 में सोमवार 30 सितम्बर, 2019, सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी।

(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुपालन में, उपरोक्त एजीएम के प्रयोजन के लिए, सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण खाते मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) को बंद रहेंगे। वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 के साथ 129वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को

एतदद्वारा यह भी सुवित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 और कंपनी

मेजी जा रही है जिनके ई—मेल पते कंपनी / ढिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उन्हें स्वीकार्य पद्धति द्वारा भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम

2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015, के विनियमन 44, समय समय पर संशोधित, के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों के लिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, उपरोक्त एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलैक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने की सविधा सहर्ष प्रदान

पुनश्च, मतपत्र के गाध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किंत वे एजीएम में अपना वोट नही डाल सकेंगे।

श्रीमती प्रगन्या परमिता प्रधान, पूर्णकालिक अध्यासरत कंपनी सचिव, मैसर्स प्रगन्या प्रधान एंड एसोसिएट्स, कंपनी सविवों, की प्रोपराइटर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया व एजीम पर मतदान को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियक्त किया गया है। सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी की 129वीं एजीएम की सूचना में यथा निर्धारित सामान्य कार्यकलापों तथा विशेष कार्यकलापों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की कार्यवाही की जा सकती है;
- (i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (प्रात: 9.00 बजे भा.मा.स.) से आरंभ हो
- 🛍 रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे मा.मा.स.) को समाप्त हो रही है:
- (v) कट—ऑफ तिथिः सोमवार, 23 सितम्बर, 2019;
- 🚧 कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर को अधिग्रहण करता है तथा नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2019 को शेयर घारण करता है, वह evoting@nsdi.co.in पर आवेदन करके लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या टॉल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- (vi) सभी सदस्य नोट करें कि: (A) रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;
  - मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे: (C) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य
- एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं (D) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के
- रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वही रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम में बोट देने की सुविधा पाने के हकदार होंगे; (a) कंपनी की 129वीं एजीएम का सूचना पत्र कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in) और एनएसढीएल
- की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.co.in) पर उपलब्ध है, और (ai) किसी भी शंका के मामले में, सदस्य 'सदस्यों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्य)
- एवम 'ई-वोटिंग यूजर निर्देशिका' जो www.evoting.nsdl.co.in के डाउनलोड भाग में उपलब्ध है, का संदर्भ ले सकते हैं या श्री अजय कुमार दलाल, वरिष्ठ प्रबंधक / श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबंधक, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज ।, नई दिल्ली-110020, फोन नं.-011-41406149, ई-मेल-admin@mcsregistrars.com या एनएसडीएल से टोल फ्री नं0 1800-222-990, पर संपर्क करें, जो इलैक्ट्रानिक वोटिंग से जुडी शिकायतों का समाधान करेंगे।

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट(१) पर भी उपलब्ध होगी। कृते डीसीएम लिमिटेड

यादविन्दर गोयल कंपनी सचिव

### निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1993PLC055470)

पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली—110001

ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com

फोन : 011-42878900, फैक्स : 011-22424291 26वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

### रिमोट ई-वोटिंग व बुक क्लोजर सूचना

एतद द्वारा निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यगण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 26वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10 बजे प्लॉट-6सी, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, पटपड़गंज, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली—110092 स्थित 'गोल्डन पाम्स होटल एंड स्पा' में होगी। जिसमें दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को निष्पादित किया जाएगा

कम्पनी के वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 से सम्बन्धित एजीएम की सूचना जिसमें रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीका

बताया गया है प्रकाशित उपस्थिति स्लिप तथा प्रोक्सी फार्म के साथ कम्पनी 4 सितम्बर 2019 को उन सदस्यों को जो कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार के साथ अपने ई-मेल पते पर दर्ज कर लिया है, उनको भेजा गया है और एजेंट स्थानांतरण (आरटीए)/उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जो 4 सितम्बर 2019 को कम्पनी/कम्पनी के आरटीए के साथ ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है उन्हें रजिस्टर्ड से भेज दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट भी सदस्यों को भेज दी गई है और एजीएम की सूचना के साथ–साथ वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी कम्पनी की वेबसाइट www.nimbusprojectsltd.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक आमसभा की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट के लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड की जा चुकी है। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां निरीक्षण के लिए शनिवार और रविवार को छोडकर सभी कार्य दिवसों में कामकाज की अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी एजीएम की तिथि तक उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हो वे इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा उपरोक्त पते या ई–मेल आई डी पर भी कम्पनी सचिव को लिखित रूप में अपनी प्रति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीकेशन्स एड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेटस) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेश्न 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन और कम्पनी (प्रबंध और शासन प्रबंध) के नियम 20 के अनुसार यह कम्पनी एजीएम की सूचना में अन्यत्र किसी स्थान से (एनएसडीएल) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटिरी लि. की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। सभी सदस्यों को सूचित

- किया जाता है कि— क) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9 बजे से शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2019 को शाम 5 बजे के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी।
- ख) वह सदस्य जो कम्पनी के शेयर कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर 2019 पर भौतिक या डीमैट रूप में रखता है उसी को
- दूरस्थ/एजीएम पर ई—वोटिंग/वोटिंग का अधिकार प्राप्त होगा। ग) ऐसे सदस्य जो सूचना देने के पश्चात तथा कट-ऑफ तिथि पर शेयर अधिकृत किए हैं तथा इस तिथि पर कम्पनी के सदस्य बने हैं वो "लॉगइन आई डी तथा पासवर्ड" evoting@nsdl.co.in या जारीकर्ता/आरटीए को
- लिखकर प्राप्त कर सकता है। आम सभा की सूचना में इसकी विस्तृत प्रक्रिया समझाई गई है, जो कम्पनी की घ) ऐसे सदस्य जो दूरस्थ मतदान कर चुके हैं व आम सभा में शामिल होने के हकदार है परन्तु उनको फिर से मतदान का अधिकार नहीं होगा। एजीएम में मतदान बैलेट प्रक्रिया द्वारा होगा। दूरस्थ मतदान की प्रक्रिया उपरोक्त तिथि
- तथा समय के पश्चात एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात इसे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी प्रश्न या मुद्दे पर जो ई—मतदान से सम्बन्धित है सदस्य इसके लिए एफएक्यू (बार—बार पूछे जाने वाले प्रश्न) तथा ई-वोटिंग मैन्युवल जो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है, से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- या इसके लिए निम्नलिखित पर ई-मेल लिखकर अथवा सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं:

नाम-साहिल अग्रवाल पद-कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पता-1001-1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

ई-मेल-secretarial@nimbusgroup.net

दुरभाष नं.- 011-42878909/910

- च) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 जो सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेट्स) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 42 के उचित नियमों के साथ पठित, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 से सोमवार 30 सितम्बर 2019 (दोनों दिन समाहित) बंद रहेंगी। छ) कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर सुनिश्चित करने के लिए
- प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता नं. एफ5898; प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र नं. 5458) श्री कपिल देव वशिष्ठ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कृते निम्बस प्रोजेक्टस लिमिटेड

साहिल अग्रवाल

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. ए३६८१७

नई दिल्ली

तिथि : 04 सितम्बर, 2019

स्थान : नई दिल्ली

# NIMBUS